

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० १०४ | नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च २१, १९६९/फाल्गुन, ३०, १८९०
No. 104 | NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 21, 1969/PHALGUNA 30, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March 1969

S.O. 1162.—In pursuance of sub-rule (2) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, the following is published for general information:—

FORM 7B

List of Contesting Candidates

[See Rule 10(1)]

Bye-Election to the Council of States by the elected Members of the Punjab Legislative Assembly (In the vacancy caused by the death of Shri Uttam Singh).

Serial No.	Name of candidate	Address of Candidate
1	2	3
1	Amar Singh	Village Rolumajra, P.O. Samana Kalan, Teh. & Distt. Ropar.

1	2	3
2	Harcharan Singh	House No. 87, Mohalla Dodan, Faridkot.
3	Rajinder	House No. 2168, Patiala.

Place: Punjab Vidhan Sabha
Secretariat, Vidhan
Bhavan, Chandigarh-1.

Sd/- Krishan Swaroop,
Returning Officer.

Date: 17.3.1969.

[No. 100/CS-PB/2/68.]

By Order,
A. N. SEN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1969

एस० एन० 1163—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उप-नियम (2) के अनुसरण में निम्नलिखित का प्रकाशन सर्वसाधारण की सूचनार्थ किया जाता है :—

प्रारूप—7ख

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

[नियम 10(1) देखिए]

पंजाब विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन (श्री उत्तम सिंह की मृत्यु हो जाने से हुई रिक्ति)

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3
1.	अमर सिंह	ग्राम रोलमाजरा, डाकघर समाना कला । तहसील व जिला रोपड़ ।
2.	हरचरण सिंह	मकान नं० 87 मोहल्ला दोदान, फरीदकोट ।

1

2

3

3. राजिन्दर मकान नं० 2/68,
पटियाला ।

स्थान : पंजाब विधान सभा सचिवालय,
विधान भवन, चंडीगढ़ ।

तारीख 17-3-1969

ह०

(कृशन स्वर्ण)

रिटनिंग आफिसर

संख्या 100/रा०स०-पंजाब/2/68.

आदेश से,

ए० एन० सैन

सचिव, भारत निर्वाचन आयोग

